



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 03.11.2021

1-थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा दिल्ली/एनसीआर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 03/11/2021 को थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बरौला टी पाइंट के पास से दिल्ली/एनसीआर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य 1. राजकुमार उर्फ गिरीश उर्फ अरविन्द पुत्र राजाराम निवासी ग्राम पीरपुर, थाना कोतवाली मैनपुरी, जिला मैनपुरी वर्तमान पता पक्षी विहार, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर नोएडा, 2. ब्रिजेश पुत्र सुल्तान सिंह निवासी उझईया फकीरपुर, थाना दन्नाहार, जिला मैनपुरी, वर्तमान पता पक्षी विहार, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर नोएडा, 3. कृष्णा पुत्र संतोष निवासी उझईया फकीरपुर, थाना दन्नाहार, जिला मैनपुरी वर्तमान पता पक्षी विहार, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर नोएडा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल (1. 01 मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे नं0 UP 32 JE 8867, 2. 01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर नं0 UP 64 W 1368, 3. 01 मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना नं0 DL 7 SAL 3143) बरामद की गई है।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया की अपाचे व प्लेटिना मोटरसाइकिल उनके द्वारा थाना सूरजपुर (संबंधित मु0अ0सं0 776/2021 धारा 379 भादवि) व थाना सेक्टर-24 (मु0अ0सं0 0648/2020 धारा 379 भादवि)नोएडा क्षेत्र से व बजाज पल्सर मोटरसाइकिल न्यू अशोक नगर, दिल्ली (संबंधित मु0अ0सं0 026521/2021 धारा 379 भादवि) से चोरी की गई थी तथा आज वह इन मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमारे और भी अन्य साथी है जिनके साथ मिलकर हम जस्ट डॉयल के माध्यम से ऑनलाइन गाड़ियां बुक करते है तथा गाड़ियों के ड्राइवरो को बांधकर सुनसान जगहो पर फेंक कर गाड़ियों को लेकर चले जाते है तथा छिनी गई गाड़ियों को अलग-अलग लोगों को बेच देते है। पूर्व में इनके द्वारा एक सियाज गाड़ी जस्ट डॉयल के माध्यम से सुरजपुर से ग्वालियर के लिए बुक की गई थी जिसके ड्राइवर को इन लोगों ने हस्तिनापुर ग्वालियर के पास उतार दिया था और गाड़ी लेकर मैनपुरी चले गये थे तथा एक डिजायर सफेद रंग की गाड़ी करीब 5/6 महिने

पहले डेल्टा प्रथम थाना सूरजपुर से अलीगढ़ के लिए बुक की गई थी जिसके ड्राइवर को इन्होंने दाउद खां स्टेशन जिला अलीगढ़ के पास बन्धक बनाकर गाड़ी छीन ली थी और उसे उतार कर यह लोग गाड़ी को अलीगंज जिला एटा ले गये थे।

अभियुक्तों का विवरण:

1. राजकुमार उर्फ गिरीश उर्फ अरविन्द पुत्र राजाराम निवासी ग्राम पीरपुर, थाना कोतवाली मैनपुरी, जिला मैनपुरी वर्तमान पता पक्षी विहार, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर नोएडा।
2. ब्रिजेश पुत्र सुल्तान सिंह निवासी उझईया फकीरपुर, थाना दन्नाहार, जिला मैनपुरी, वर्तमान पता पक्षी विहार, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर नोएडा।
3. कृष्णा पुत्र संतोष निवासी उझईया फकीरपुर, थाना दन्नाहार, जिला मैनपुरी वर्तमान पता पक्षी विहार, ग्राम देवला, थाना सूरजपुर नोएडा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0 0776/2021 धारा 379 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 648/2020 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 26521/2021 धारा 379 भादवि थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 1056/2021 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर-49 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

चोरी की 03 मोटरसाइकिल-(1. 01 मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे नं0 UP 32 JE 8867 चैचिस नं0 MD634BE4XH2G22867 इंजन नं0 BE4GH2121568, 2. 01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर नं0 UP 64 W 1368 चैचिस नं0 MD2A13EZ9ECC43626 इंजन नं0 DKZCEC33917, 3. 01 मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना नं0 DL 7 SAL3143 चैचिस नं0 MD2A76AZ1GRA84722 इंजन नं0 PFZRGGA97601)



2-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर लूटेरे/चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की सैन्ट्रो कार मय 03 फर्जी नम्बर प्लेट, लूट की घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, लूट की घटना से सम्बन्धित 11,000/- नगद व ग्राम अच्छैजा में शराब के ठेके से चोरी किये गये 90 पव्वे देशी शराब मिस इंडिया उ0प्र0 मार्का बरामद।

दिनांक 03.11.2021 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के हनुमान मन्दिर सादोपुर झाल के पास से 02 अभियुक्त 1. रवि पुत्र राजा राजकुमार निवासी निहाल बिहार, 50 फुटा रोड, गली नं0-3 थाना निहाल बिहार, दिल्ली वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, 2. मंगल सैन पुत्र हीरा लाल निवासी ग्राम रसूलपुर संगवा, थाना इस्लामनगर, जिला बदायूं वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से गुरूग्राम, हरियाणा से चोरी की गयी एक कार सैन्ट्रो रजि0 नं0 यूपी 80 बीएच 0086 फर्जी नम्बर प्लेट लगी मय 03 फर्जी नम्बर प्लेट तथा दिनांक 10/10/2021 की रात्रि में ग्राम अच्छैजा स्थित ठेके में चोरी की गयी शराब में से 90 पव्वे देशी शराब मिस इंडिया उ0प्र0 मार्का तथा दिनांक 09.10.2021 को ग्राम डेरी स्केनर में महिला के गले से छीने गये मंगलसूत्र की बिक्री के खर्च के बाद बचे 11,000/- नगद बरामद किये गये है। अभियुक्तों द्वारा शराब ठेका से चोरी करने की उक्त घटना में अपने साथी 3.सतपाल पुत्र रामलाल निवासी सूरजपुर, थाना चन्दोस, जिला अलीगढ वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर व 4.देवेन्द्र उर्फ देवन पुत्र उमेश निवासी गांव रकबा, थाना भेजा, जिला मधुवनी, बिहार वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को भी घटना में शामिल होना बताया गया जिस पर अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त सतपाल व देवन उर्फ देवेन्द्र उपरोक्त को थाना क्षेत्र के रोजा फाटक से उक्त लूट में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल स्पेन्डर प्लस के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. रवि पुत्र राजा राजकुमार निवासी निहाल बिहार, 50 फुटा रोड, गली नं0-3 थाना निहाल बिहार, दिल्ली वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मंगल सैन पुत्र हीरा लाल निवासी ग्राम रसूलपुर संगवा, थाना इस्लामनगर, जिला बदायूं वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 3.सतपाल पुत्र रामलाल निवासी सूरजपुर, थाना चन्दोस, जिला अलीगढ वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 4.देवेन्द्र उर्फ देवन पुत्र उमेश निवासी गांव रकबा, थाना भेजा, जिला मधुवनी, बिहार वर्तमान पता ग्राम साखीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

अभियुक्त रवि-

1. मु0अ0सं0 465/21 धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 466/21 धारा 414/482 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 449/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 448/21 धारा 392/411 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 08/21 धारा 379 भादवि थाना पालम विहार जिला गुरूग्राम हरियाणा।
6. मु0अ0सं0 480/16 धारा 2/3 गैग0एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 984/19 धारा 398/401 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 986/19 धारा 4/25 ए0एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त मंगल सैन-

1. मु0अ0सं0 465/21 धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 466/21 धारा 414/482 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 449/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 448/21 धारा 392/411 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 08/21 धारा 379 भादवि थाना पालम विहार जिला गुरूग्राम हरियाणा।
6. मु0अ0सं0 531/21 धारा 398/401 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 532/21 धारा 4/25 ए0एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

सतपाल पुत्र रामलाल-

1. मु0अ0सं0 466/21 धारा 414/482 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 449/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

देवेन्द्र उर्फ देवन-

1. मु0अ0सं0 466/21 धारा 414/482 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 449/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0सं0 480/16 धारा 2/3 गैग0एक्ट थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 531/21 धारा 398/401 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 309/16 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.01 कार सैन्ट्रो फर्जी नम्बर प्लेट लगी सम्बन्धित मु0अ0सं0 8/21 धारा 379 भादवि थाना पालम बिहार, गुरूग्राम हरियाणा।
2. मु0अ0सं0 448/21 धारा 392/411 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर की घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पेन्डर फर्जी नम्बर प्लेट लगी।
3. 11000/-नगद संबंधित मु0अ0सं0 448/21 धारा 392/411 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
4. 90 पच्चे देशी शराब मिस इंडिया उ0प्र0 मार्का संबंधित मु0अ0सं0 449/21 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 465/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
5. 03 फर्जी नम्बर प्लेट



3- थाना फेस-2 पुलिस द्वारा एसटीएफ के संयुक्त प्रयास से चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त (50 हजार का इनामी) पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस तथा घटना के पश्चात भागने में प्रयुक्त स्कूटी, जामा तलाशी से कुल 5450 रुपये नगद एवं बरामदगी के दौरान अभियुक्त द्वारा उपनिरीक्षक की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करते समय अभियुक्त के कब्जे से सरकारी पिस्टल मय खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 03/11/2021 को थाना फेस-2 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 630/2021 धारा 302/120बी भादवि में वांछित 50 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त संदीप पीलवान पुत्र बुद्धिसिंह पीलवान निवासी

ग्राम-इलाहाबास सेक्टर-86 थाना फेस-2 नोएडा गौतमबुद्धनगर को एसटीएफ आगरा यूनिट, मेरठ क्षेत्र के एसटीएफ टीम के साथ थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा समय 13.35 बजे गिरफ्तार किया गया एवं थाना लाकर दाखिल किया गया है ।

अभियुक्त की निशादेही पर पुलिस द्वारा घटना प्रयुक्त में प्रयुक्त तमंचा जिसकी नाल में खोखा फँसा, 01 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस एवं घटना बाद प्रयोग में ली जाने वाली स्कूटी को भी बरामद किया गया है ।

बरामदगी के दौरान अभियुक्त संदीप द्वारा उ0नि0 श्री नदीम अली की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया एवं भागने का प्रयास किया गया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गयी गोली अभियुक्त के पैर में लगने के कारण अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है । घायल अभियुक्त को अस्पताल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। उपनिरीक्षक की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करते समय अभियुक्त के कब्जे से सरकारी पिस्टल मय खोखा कारतूस बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरण:

संदीप पीलवान पुत्र बुद्धि सिंह पीलवान निवासी ग्राम-इलाहाबास सेक्टर-86 थाना फेस-2 नोएडा।

अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 630/2021 धारा 302/120बी भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 652/2021 धारा 307 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 653/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 630/2021 धारा 302/120बी भादवि में हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 2.घटना पश्चात प्रयोग की जाने वाली स्कूटी रंग लाल।
- 3.जामातलाशी से कुल 5450 रुपये नगद।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेंट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इस कड़ी में दिनांक 03/11/2021 को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्त राजेश भारद्वाज पुत्र शंकर लाल शर्मा निवासी 40 शेख पेन, चम्पालाल की हवेली, खुर्जा, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर सम्बन्धित मु0अ0सं0 697/2020 अंतर्गत धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत थाना दादरी गौतमबुद्धनगर के द्वारा अवैध धन से अर्जित सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड क्लोकाउण्टी- जी0एच0 05, सेक्टर-12, 13वाँ फ्लोर, नोएडा में एक फ्लैट व कार हौंडा सिटी जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1 करोड 90 लाख 60 हजार रु0 को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया।

अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा जनपद के सभी नागरिकों को दी गई दीपावली की शुभकामनाएं, प्रकाश के पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर पुलिस आयुक्त कार्यालय, सेक्टर-108 हुआ प्रकाशमय

प्रकाश के पर्व दीपावली के अवसर पर पूरा जनपद रोशनी से चमक रहा है। इसी क्रम में दीपावली की पूर्व संध्या पर पुलिस आयुक्त कार्यालय, सेक्टर-108 भी विभिन्न लाइटों, दियों व रोशनियों की सहायता से प्रकाशमय हो गया है। पुलिस आयुक्त श्री आलोक सिंह द्वारा जनपद के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई व जनपदवासियों से सुरक्षित और भाईचारा बनाए रखते हुए दीपावली का पर्व मानने की अपील की। उनके द्वारा संदेश दिया गया कि प्रकाश का यह पर्व अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाशमय करता है। सभी लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उनके द्वारा लोगों को जरूरतमंद लोगों से खरीदारी करने का भी आह्वाहन किया गया जिससे जरूरतमंद लोग भी अपने घरों में दीपावली का पर्व मना सकें।

कमिश्नरेंट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा चेतना व HCL फाउंडेशन के सहयोग से दीपावली के अवसर पर 15 स्थानों में करीब 1100 बच्चों को दी दीपावली की खास मुस्कान

अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्रीमती पुष्पांजलि द्वारा सेक्टर-52 के पास नन्हे परिंदे वैन लोकेशन पर जाकर बच्चों से की खास मुलाकात, बच्चों को दिए उपहार व मिठाइयां तथा गौर सिटी के पास डीसीपी ट्रैफिक के साथ सेवा सदन ग्रुप फाउंडेशन में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को बांटे पाठ्य सामग्री व मिठाइयां।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर सामाजिक संस्था चेतना (चाइल्डहुड एन्हांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन) HCL फाउंडेशन के सहयोग से नोएडा के 15 स्थानों में करीब 1100 बच्चों को दीपावाली का उपहार दिया गया। बच्चों द्वारा बहुत ही उत्साह से साथ दीवाली के कार्यक्रमों में भाग लिया और नन्हे परिंदे व गुरुकुल के हर सेंटर पर रंगोली, ड्राइंग व रंगारंग कार्यक्रम किया गया। गुरुकुल व नन्हे परिंदे वैन के सभी लोकेशन पर नज़दीकी थाना के थाना प्रभारी, कॉन्स्टेबल, अन्य पुलिसकर्मी व एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के पुलिसकर्मी भी शामिल हुए और उनके हाथों से ही बच्चों को उपहार दिए गए।

अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्रीमती पुष्पांजलि द्वारा नन्हे परिंदे वैन लोकेशन सेक्टर-52 पर भ्रमण किया गया और बच्चों से मुलाकात की गई। दीपावाली के खास अवसर पर पुलिस अधिकारी को अपने बीच में पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके द्वारा बच्चों के पास बैठकर उनसे बात करते हुए बच्चों की कला प्रदर्शनी भी देखी गई। उन्होंने बच्चों की कला की सराहना करते हुए वहां मौजूद चेतना संस्था के अधिकारियों से भी बात की।

अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्रीमती पुष्पांजलि द्वारा डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद के साथ गौर सिटी के पास स्थित सेवा सदन ग्रुप फाउंडेशन में जाकर वहां पढ़ने वाले गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल व अन्य जरूरी पाठ्य सामग्री एवं मिठाई वितरित की। पुलिस अधिकारियों द्वारा बच्चों को मिठाइयां वितरित करते हुए दीपावाली की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर टीआई विक्रम सिंह चौहान, टीआई सीपी मिश्रा व पीआरओ विनीत चौधरी भी उपस्थित रहे व उनके द्वारा भी बच्चों को उपहार बांटे गए।

उक्त सभी कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया गया ताकि बच्चों पूरी सुरक्षा के साथ दीवाली का पर्व धूमधाम से मना सके।





डीसीपी महिला सुरक्षा द्वारा एसीपी-1 नोएडा के साथ सेक्टर-18 में नन्हे परिंदे वैन के पास व सेक्टर 44 की झुगियों में रहने वाले बच्चों व उनके परिवारों को मिठाई व उपहार वितरित कर दीपावली का पर्व मनाया गया।

दिनांक 03/11/2021 को डीसीपी महिला एवं बाल सुरक्षा वृंदा शुक्ला द्वारा एसीपी-1 नोएडा अंकिता शर्मा के साथ सेक्टर-18 में नन्हे परिंदे वैन के पास व सेक्टर 44 की झुगियों में रहने वाले बच्चों व उनके परिवारों को मिठाई व उपहार वितरित कर दीपावली का पर्व मनाया गया। डीसीपी महिला सुरक्षा व एसीपी-1 नोएडा द्वारा नन्हे परिंदे वैन सेक्टर-18 पर जाकर बच्चों के साथ खुशियां बाटी गयी एवं बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनको उपहार व मिठाई वितरित की। पुलिस अधिकारियों को अपने बीच पाकर नन्हे परिंदों के भी चेहरे खिल उठे व दीपावली की उनकी खुशियां बढ़ गई। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारियों द्वारा सेक्टर 44 की झुगियों में रहने वाले बच्चों व उनके परिवारों से मुलाकात की गई तथा दीपावली के शुभ अवसर पर उनको भी उपहार व मिठाइयां वितरित किए।





डीसीपी नोएडा द्वारा एसीपी-1 नोएडा के साथ स्वामी विवेकानंद आश्रम सेक्टर-26 में रह रहे बच्चों के साथ मनाया गया दीपावली का पर्व।

दिनांक 03/11/2021 को डीसीपी नोएडा राजेश एस द्वारा एसीपी-1 नोएडा अंकिता शर्मा व थाना प्रभारी सेक्टर 20 मुनीष चौहान के साथ स्वामी विवेकानन्द आश्रम सेक्टर-26 में रहने वाले बच्चों को मिठाई व उपहार वितरित करते हुए उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा वहां रहने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को दीपावाली का पर्व सुरक्षित रहते हुए मानने की सलाह दी गई। उनके द्वारा बच्चों को बताया गया की मिल जुलकर रहने से त्योहार की खुशियां बढ़ जाती है एवं आपस में भाईचारे के साथ रहने से प्यार बढ़ जाता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा बच्चों को उपहार बाटते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया गया।



डीसीपी सेंटरल नोएडा द्वारा एसीपी सेंटरल नोएडा-2 थाना प्रभारी बिसरख के साथ थाना क्षेत्र बिसरख के अंतर्गत चेरी काऊंटी स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों व परिजनों के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया।

दिनांक 03/11/2021 को डीसीपी सेंटरल नोएडा हरीश चंद्र द्वारा एसीपी -2 सेंटरल योगेंद्र सिंह नोएडा व थाना प्रभारी बिसरख अनीता चौहान के साथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेरी काऊंटी स्थित झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों तथा उनके माता पिता व परिजनों के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया, जिसमे डीसीपी सेंटरल नोएडा द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को मिठाइयां व खिलौने वितरित करते हुए दीपावली पर्व की खुशियां साझा की गई। डीसीपी सेंटरल नोएडा के साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा भी सभी बच्चों व परिजनों को मिष्ठान, फल वितरित करते हुए दीप प्रज्वलित कर दीपावली पर्व को हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया।

